

॥ ॐ दुर्गायै नमः ॥

नवरात्रि पूजा सामग्री लिस्ट

घटस्थापना से विसर्जन • चेकलिस्ट PDF 2026

VH Original • vhoriginal.com

शारदीय नवरात्रि 2026: घटस्थापना 11 अक्टूबर, दशहरा 20 अक्टूबर। बाज़ार से पहले इस लिस्ट पर निशान लगाएँ। मात्रा घर और कुल के हिसाब से बढ़ाएँ।

1. घटस्थापना / कलश

सामग्री	नोट
☐ पीतल / ताँबे का कलश	नई या अच्छी तरह धुली गगरी
☐ नारियल	पानी वाला, मुकुट सहित
☐ आम के पल्लव (5 या 7)	ताज़ा पत्ते
☐ कलावा / मौली	कलश और नारियल बाँधने को
☐ अक्षत (चावल)	कच्चा, बिना तोड़े
☐ सिक्के	कलश के जल या चावल में
☐ गंगाजल या साफ जल	कलश भरने के लिए
☐ रोली, हल्दी, चंदन	कलश पर स्वस्तिक
☐ मिट्टी का बरतन + जौ / गेहूँ	जाऊरे / कनेर बोने को, घर-परंपरा अनुसार

2. रोज़ की पूजा थाली

सामग्री	नोट
☐ माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति	घर के मंदिर में स्थिर रखें
☐ लाल / पीला कपड़ा	आसन और थाली
☐ दीया + तेल / घी + बाती	नौ दिन चलने लायक स्टॉक
☐ अगरबत्ती, धूप, कपूर	आरती के लिए
☐ घंटी, आरती थाली	—
☐ फूल — गेंदा, गुलाब	रोज़ ताज़ा
☐ दुर्वा, बिल्व / बेलपत्र	जहाँ सुलभ हो
☐ सुपारी, लौंग, इलायची	नैवेद्य के साथ
☐ मिठाई / फल / पंचामृत	भोग



जनेऊ, सिंदूर

घर की रीत अनुसार

3. अखंड ज्योत

सामग्री	नोट
☐ बड़ा दीया या मिट्टी का कुंडा	हवा से बचाकर रखें
☐ देशी घी	तेल से ज्योत कई घर नहीं रखते
☐ मोटी रुई की बाती	दो-तीन अतिरिक्त बाती
☐ थाली / रेत का आधार	गिरने से सुरक्षा

4. अष्टमी-नवमी / कन्या पूजन

सामग्री	नोट
☐ कन्याओं के लिए हलवा, पूरी, चना	घर की रेसिपी
☐ काला चना उबला	प्रसाद
☐ चौला / छोटी कन्याओं के उपहार	चुड़ी, बिंदी, रूमाल — रीत अनुसार
☐ पैसा दक्षिणा	—

5. विसर्जन

सामग्री	नोट
☐ नदी / तालाब या घर का गमला	स्थानीय नियम देखें
☐ फूल, अक्षत, मौली	कलश उतारने के समय

6. व्रत रसोई — अलग लिस्ट

सेंधा नमक, साबूदाना, कुट्टू, समक, राजगिरा, सिंघाड़ा आटा, दूध-दही, फल, आलू-शकरकंद। यह पूजा थाली से अलग रसोई का स्टॉक है।

यह लिस्ट उत्तर भारत के घरों की सामान्य परंपरा पर आधारित है। पंडित जी या कुल-रीत कुछ वस्तुएँ जोड़ या घटा सकते हैं। 2026 की तिथि अपने शहर के पंचांग से मिलाएँ।

यह सूची हिंदू पुराणों, लोक-परंपरा और घरों में प्रचलित पूजा-विधि पर आधारित है। तिथि और सामग्री आपके क्षेत्र के पंचांग से बदल सकती है। यह आस्था की सूची है — चिकित्सा, कानूनी सलाह या फल की गारंटी नहीं। वेबसाइट इसके उपयोग से होने वाले लाभ-हानि की जिम्मेदारी नहीं लेती।